

तुरंत रिलीज के लिए

### **ब्रैम्पटन की रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस को एफ.सी.एम. बोर्ड में दुबारा चुना गया**

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 जून, 2021) – आज अपनी वार्षिक जनरल मीटिंग (Annual General Meeting) में, फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM) ने ऐलान किया कि ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos) को, 2021-2022 से एक वर्ष की टर्म के लिए, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दुबारा चुना गया है।

एफ.सी.एम., 1901 से कॅनेडा की म्युनिसिपल सरकार की राष्ट्रीय आवाज़ रही है। इसके मेम्बर्स में पूरे देश की 2,000 से अधिक म्युनिसिपल्टीज शामिल हैं, जो सारे कॅनेडा निवासियों की 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस वर्ष कॉन्फ्रेंस, 31 मई से 4 जून तक वर्चुअल (आभासी) तौर पर हुई थी, जिसमें सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को मुख्य मुद्दों पर एफ.सी.एम. (FCM) की नीति तय करने और निम्नलिखित कार्यों के लिए फेडरल सरकार (Federal Government) से सहयोग और फंडिंग की हिमायत करने का अवसर प्रदान किया गया था:

- ट्रांज़िट ऑपरेशन्स के लिए फंडिंग सहित, सेफ रीस्टार्ट एग्रीमेंट (Safe Restart Agreement) के लिए सक्सेसर एग्रीमेंट पर काम करना;
- इंटर-रीजनल, उच्च-ऑर्डर ट्रांज़िट नेटवर्क के लिए प्रतिबद्धता;
- सक्रिय ट्रांस्पॉर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रामों को लागू करने के लिए स्थिर फंडिंग;
- जलवायु संबंधी बदलाव ग्रहण करने और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए निवेश और नीति में बदलाव; और,
- आर्थिक विकास और बहाली में निवेश, जैसे रोजर्स साइबरसिक्योर कैटालिस्ट (Rogers Cybersecure Catalyst) में निवेश।

सिटी की हिमायत के बारे में अधिक जानकारी, [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(City of Brampton's website\)](#) पर उपलब्ध है।

एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चुनाव, 31 मई से 4 जून तक वर्चुअल तौर पर हुए थे और आज, एफ.सी.एम. की वार्षिक जनरल मीटिंग में इसकी पुष्टि की गई।

### **हवाले**

“पूरे देश के म्युनिसिपल लीडर्स की टीम के साथ, दूसरी टर्म के लिए एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर काम करना सम्मान की बात है। एफ.सी.एम. में हम, हमारी सभी साझेदारियों को मज़बूत बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं हमारी आर्थिक बहाली और जलवायु संबंधी बदलाव के लक्ष्यों सहित, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए मुख्य मुद्दों की हिमायत करना जारी रखूंगी। चूंकि देश का प्रमुख हिमायती समूह म्युनिसिपल्टीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एफ.सी.एम., कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना करने वाली म्युनिसिपल्टीज के लिए फेडरल फंडिंग प्राप्त करने में सफल रही है और इसने मेल खाते प्रोविंसियल फंडों को सुरक्षित रखने के लिए, एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज ऑफ ओनटैरियो (ओ.एम.ओ.) और ओनटैरियो के बिग सिटी मेयर्स (ओ.बी.सी.एम.) के साथ मिलकर

काम किया है। इकट्ठे मिलकर, हम हमारी लोकल कम्युनिटीज की शानदार स्थिरता का जशन मनाते हैं। हम यह पड़ताल करना जारी रखेंगे कि महामारी में आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए, हमारे शहरों और निवासियों को किन चीजों की जरूरत है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की ओर से, मुझे गर्व है कि काउंसलर सैंटोस को इस पद पर हमारे शहर के लिए काम करने, ब्रैम्पटन को पब्लिक ट्रांज़िट, सक्रिय ट्रांस्पॉर्टेशन नेटवर्क, कोविड-19 महामारी से बहाली में सहायता के लिए फंडिंग का उचित हिस्सा मिलने को सुनिश्चित करने के लिए; हमारी काउंसिल के द्वारा किए जा रहे कार्य को आगे बढ़ाने और ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए चुना गया है। मुझे यकीन है कि रोएना का संचालन और प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करेगी कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में और पील रीजन में हमारे निवासियों की आवाज़ सुनी जाती है और प्रभावशाली ढंग से नतीजे प्रदान किए जाते हैं।”

- *पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)